

प्रेस-नोट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी (कोविड-19) के चलते अब तक संचालित हुई सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2020 के विषयों का अंकन कार्य छात्र हित को देखते हुए स्थल मूल्यांकन के स्थान पर घर पर ही अंकन का कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2020 के लिए प्रदेशभर में 39 अंकन-कम-संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। अंकन इयूटी के लिए नियुक्त परीक्षकों को उनके मोबाईल नं० पर संदेश भिजवाये गये हैं तथा संबंधित स्कूल मुखियाओं को भी ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि अंकन कार्य हेतु विषयवार 3353 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र विषय के लिए 160, अंग्रेजी के लिए 1061, ललित कला के लिए 94, हिन्दी के लिए 933, गृह-विज्ञान के लिए 159, गणित के लिए 277, शारीरिक शिक्षा के लिए 417, भौतिक के लिए 198 एवं पंजाबी के लिए 54 परीक्षक लगाये गये हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अंकन कार्य हेतु नियुक्त परीक्षक अपने-अपने केन्द्र से अंकन संबंधी सभी आवश्यक हिदायतें व मूल्यांकन निर्देशों की जानकारी एवं उत्तरपुस्तिकाओं का सील्ड बण्डल 22अप्रैल को आवश्यक रसीद देते हुए प्राप्त करेंगे तथा अंकन कार्य पूरा होने पर 02 मई तक अंक सूची सहित उत्तरपुस्तिका का बण्डल संबंधित अंकन/संग्रहण केन्द्र पर जमा करवायेंगे। इसके अतिरिक्त सैकेण्डरी परीक्षा के परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन की गई उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल अंक सूचियों सहित अपने निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर 22 अप्रैल को जमा भी करवायेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी नियुक्त परीक्षक उत्तरपुस्तिका का बण्डल प्राप्त करते समय कोरोना महामारी (कोविड-19) के चलते सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों यथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तथा मास्क लगाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की देख-रेख में उत्तरपुस्तिकाओं के बैग वितरण एवं प्राप्ति का कार्य करवाया जायेगा। अंकन संबंधी किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु सहायक सचिव (गोपनीय-1) की ई-मेल asrec12@bseh.org.in पर पत्राचार कर सकते हैं।